

Department of Corporate Services,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited  
C-1, G-Block, Bandra - Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 543320, Scrip Symbol: ZOMATO  
ISIN: INE758T01015**

**Subject: Newspaper publication - Financial results for the quarter and nine months ended  
December 31, 2024**

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper publication for financial results of the quarter and nine months ended December 31, 2024, published in the following editions:

- Financial Express (English newspaper - all editions) on January 22, 2025; and
- Jansatta (Hindi vernacular newspaper in Delhi) on January 22, 2025

A copy of the same will be hosted on the website of the Company at [www.zomato.com](http://www.zomato.com).

**For Zomato Limited**

**Sandhya Sethia  
Company Secretary & Compliance Officer**

**Date: January 22, 2025  
Place: Gurugram**

**Encl.: As above**

THE QUESTIONS WERE RAISED BY JPC ON JOINT POLLS

# Law min seeks poll panel's response to over 20 queries

DAMINI NATH & RITIKA CHOPRA  
New Delhi, January 21



Law minister Arjun Ram Meghwal introduced one-nation one-election Bills on December 17

FROM INQUIRING ABOUT real savings — given mid-term polls would also require imposition of the Model Code of Conduct — to whether irregularities in a polling booth would require re-polls for both Assembly and Parliamentary seats affected, the Joint Parliamentary Committee on the one-nation one-election Bills has raised over 20 questions that the law ministry has conveyed to the EC for its response.

The questions have been communicated to the EC by the Union law ministry in a letter written last week following the first meeting, on January 8, of the JPC, it has been learnt.

Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal had introduced the Constitution (One Hundred and Twenty-Ninth Amendment) Bill, 2024, and the Union Territories Laws (Amendment) Bill,

tics such as the requirement of Electronic Voting Machines (EVMs) and actual expenditure and real savings, the letter, it is learned, seeks clarification on how the EC will conduct polls simultaneously for a large number of Assembly and Lok Sabha constituencies over eight hours.

There are questions on what effect the proposed constitutional amendments would have on the role of EC; how simultaneous elections would address the issue of mid-term polls or bye-elections triggering impositions of the Model Code of Conduct — and whether these would still disrupt governance and defeat the purpose of holding all elections together.

Given that the Centre is the prime mover behind simultaneous polls, the letter also has a question on concerns expressed by JPC members on its impact on regional politics, with apprehensions that this could lead to political apathy and indifference among regional parties affecting local political dynamics and cultural ethos.

Also, if irregularities are detected at a polling booth during simultaneous elections, would re-polling be required for both Assembly and parliamentary elections at that booth?

The Indian Express has learned that the information has been sought from EC so that the Law Ministry can then prepare a written response and submit it to the JPC. While the next meeting of the JPC is yet to be announced, it is likely to be held by the end of the month.

This isn't the first time the Law Ministry has asked the EC for its inputs on simultaneous elections. In March 2023, the 22nd Law Ministry had sent a questionnaire to the poll panel on behalf of the Law Commission, which also studied the need and logistics of simultaneous polls, but did not publish its report before its term ended in 2024.

2024 in the Lok Sabha on December 17.

The two Bills would provide for syncing the terms of the Lok Sabha and state and Union Territory assemblies, paving the way for simultaneous elections. The two Bills were referred to a JPC.

Besides questions on logis-

# At ₹2.24 lakh crore, Rajasthan leads Q3 energy investments

NARAYANAN V  
Chennai, January 21

RAJASTHAN HAS EMERGED as the top state in attracting fresh project investments during Q3FY25, surpassing industrial giants like Maharashtra and Gujarat, according to data sourced from Projects Today, a firm tracking fresh and ongoing project investments in India.

Rajasthan secured fresh project investments worth ₹2.24 lakh crore across 363 projects during Q3FY25, accounting for 19% of the

**Maharashtra, which topped the rankings in Q2, has slipped to second position now**

country's total investments of ₹11.46 lakh crore in the quarter.

The spike in investments is due to significant contributions from the power and roadways sector projects during the period.

The state attracted 67 new power projects, including solar, wind, and hydel power,

with investments totaling ₹1,33,606.5 crore. In addition, it secured 83 road infrastructure projects worth ₹53,207.96 crore and 98 power distribution projects valued at ₹25,185.36 crore, together making up 94% of the state's total new investments in Q3FY25. Rajasthan had earlier signed MoUs worth ₹35 lakh crore during the "Rising Rajasthan" investor summit, with the Adani Group alone pledging ₹7.5 lakh crore for renewable energy and green projects over the next five years.

# Renewables' share to remain stable at 21% in FY25: Ind-Ra

THE SHARE OF renewables, including large hydro in the country's overall energy mix, is expected to remain stable at nearly 21% in FY25, India Ratings and Research (Ind-Ra) said on Tuesday.

The balance will be largely contributed by thermal capacity, the agency said in a report.

"The share of renewables (including large hydro) in the overall energy mix is expected to remain stable at nearly 21% in FY25, with the balance largely contributed by thermal," it said.

**NATIONAL FERTILIZERS LIMITED**  
(A Government of India Undertaking)  
Bathinda Unit: Sibran Road, Bathinda - 151003 (Punjab)  
Phone: 0164-2270261, 2760262 / Fax: 0164-2270463  
E-mail: gslayal@nfl.co.in; skbagaria@nfl.co.in

**NOTICE INVITING TENDER**  
Tenders are invited in Two Part Bid through GeM for following items:-

1. NIT No.: GEM/2025/B/5843155
2. Description of Items: Tricycloazole Technical Content
3. Estimated Cost: Rs. 227.79 Lakhs (inclusive of GST)
4. Cost of Tender (Rs.): NIL 5. EMD: Rs. 1,00,000/-
6. Due date for submission / opening of bids: 21.02.2025

For further details, visit our Website: [www.nationalfertilizers.com](http://www.nationalfertilizers.com) / CPP portal / [www.gem.gov.in](http://www.gem.gov.in) Any amendment / corrigendum will be displayed on these websites only. Chief Manager (Materials)

**यूको बैंक UCO BANK**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust  
Recovery Department, 10, B.T.M. Sarani, Kolkata-700001  
Tel. (033) 4455-7981/4455-7327, e-mail horec.calcutta@ucobank.co.in

**Empanelment of Recovery / Enforcement Agent(s) / Agency(ies)**  
Applications from eligible Individuals / Institutions/ Agencies /LLP/Companies etc. for "Empanelment of Recovery/Enforcement Agent(s)/Agency(ies)" are invited at UCO Bank, Head Office, Recovery Department, 7th Floor, 10 B.T.M. Sarani, Kolkata -700001 latest by 05.00 PM on 05.02.2025. For eligibility and other details, visit our website <https://www.ucobank.com> under "Tender/Notices" section.

Kolkata, 21/01/2025 Dy. General Manager (Recovery)

**INDRAPRASTHA GAS LIMITED**  
Regd. Office : IGL Bhawan, Plot No. 4, Community Centre, Sector-9, R. K. Puram, New Delhi-110 022, India  
Email : [investors@igl.co.in](mailto:investors@igl.co.in), Website : [www.iglonline.net](http://www.iglonline.net)  
Phone : 011-46074607, CIN : L23291DL1998PLC097614

**NOTICE TO THE MEMBERS OF THE COMPANY**  
**RECORD DATE FOR ISSUE OF BONUS EQUITY SHARES**  
Notice is hereby given that the Bonus Issue Committee has fixed **Friday, January 31, 2025**, as the "Record Date" for the purpose of determining the members of the Company who are eligible for Bonus Equity Shares in the proportion of 1:1 i.e. One (1) new bonus equity shares of face value of ₹ 2/- each fully paid up, for every One (1) existing fully paid-up equity share of face value of ₹ 2/- each ("Bonus Shares").

The Bonus Shares shall be allotted to the members of the Company whose names appear in the Register of Members/Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories, as on the Record Date, and shall be subject to the provisions of the Memorandum & Articles of Association of the Company and shall rank *pari passu* in all respects and carry the same rights as the existing fully paid equity shares of the Company.

Pursuant to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 and Listing Regulations, 2015, the allotment of shares in bonus issue shall be made only in dematerialized form and thus, in case of members who hold equity shares in dematerialized form, the bonus equity shares shall be credited to the respective beneficiary accounts of the Members with their respective Depository Participant(s) and in the case of members who hold equity shares in physical form, the bonus equity shares shall be transferred to Suspense Account, within such time as prescribed by law and the relevant authorities, subject to guidelines issued by SEBI in this regard.

For **Indraprastha Gas Limited**  
Sd/-  
(Vivek Sahay)  
Place: New Delhi  
Date: January 21, 2025 Company Secretary & Compliance Officer

**यूको बैंक UCO BANK**  
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)  
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001  
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

**Empowering Women, Empowering India**  
**PINK BASKET**  
Empowering Women to Save and Succeed  
**UCO APARAJITA** Savings A/c  
**UCO JAYA LAKSHMI** Current A/c  
**UCO SANCHAYIKA** RD A/c  
**UCO UDAAN**  
Exclusive Loan for Female Graduate and Post Graduate Students studying in India

**Freedom from Queues Experience Digital Banking**  
Digital Lending Journey, Android POS, QR-Sound Box, Whatsapp Banking, UCO Rewards, UCO PAY-WALLET

**Total Business** 12.28% (Y-o-Y)  
**Advances** 16.44% (Y-o-Y)  
**Deposit** 9.36% (Y-o-Y)  
**Net Profit** 27.04% (Y-o-Y)  
**Operating Profit** 41.73% (Y-o-Y)  
**NII** 19.62% (Y-o-Y)  
**PCR** 96.16%  
**GNPA** 2.91%  
**Net NPA** 0.63%

**Unaudited (Reviewed) Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2024** (₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Reviewed)	Quarter Ended 31.12.2023 (Reviewed)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	
1	Total Income from Operations (net)	740589	641271	2511987	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	99618	77689	256885	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	99618	77689	256885	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	63883	50283	165374	
5	Total Comprehensive income for the period (comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	Refer Note 2			
6	Paid Up Equity Share Capital	1195596	1195596	1195596	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	-	-	1240327	
8	Securities Premium Account	362571	362571	362571	
9	Net Worth	1840387	1577987	1625385	
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	0.07	0.07	0.08	
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	
12	Debt Equity Ratio	1.05	1.07	0.93	
13	Earning Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	-	-	
	1 Basic :	0.53	0.42	1.38	
	2 Diluted :	0.53	0.42	1.38	
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	
15	Debt Redemption Reserve	-	-	-	
16	Debt Service Coverage Ratio	-	-	-	
17	Interest Service Coverage Ratio	-	-	-	

**Notes :** 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 and 52 of the Listing Regulations.  
2. Information relating to total comprehensive income and other comprehensive income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to the bank.

Place : Kolkata  
Sd/- For UCO Bank, Sd/-  
Vijaykumar Nivritti Kamble, Rajendra Kumar Saboo, Ashwani Kumar, Aravamudan Krishna Kumar  
Executive Director, Executive Director, Managing Director & CEO, Chairman

Follow us on [f](#) [t](#) [in](#) [y](#) [e](#) [g+](#) [v](#) [p](#) 1886-103-9124 7666399400 8334001234 Missed Call for CKYC Card : 7799022129 www.ucobank.com

**zomato**  
Zomato Limited  
CIN: L93030DL2010PLC198141

**Registered office:** Ground Floor, 12A, 94 Meghdoot, Nehru Place, New Delhi - 110019, Delhi, India  
**Telephone:** 011-40592373, **Email:** [companysecretary@zomato.com](mailto:companysecretary@zomato.com), **Website:** [www.zomato.com](http://www.zomato.com)

**STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE & CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024**

The board of directors of the Company, at the meeting held on January 20, 2025, approved the unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2024 ("Financial Results").

The Financial Results along with the Limited Review Report, have been posted on the Company's website at [www.zomato.com/investor-relations/financials](http://www.zomato.com/investor-relations/financials) and can be accessed by scanning the QR code.

For and on behalf of the board of directors of Zomato Limited  
Sd/-  
Deepinder Goyal  
Managing Director and Chief Executive Officer  
(DIN-02613583)

Date: January 20, 2025  
Place: Gurugram

*Note: The above intimation is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.*

Bro, this note is torn. What to do?

Torn and damaged notes can be exchanged at a bank.

Save that note!  
You can visit any bank branch to get damaged notes exchanged for new ones.

RBI kehta hai... Smart bano, Cool raho

Issued in public interest by  
**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
RESERVE BANK OF INDIA  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

For more details, visit <https://rbikehtahai.rbi.org.in/en>  
For feedback, write to [rbikehtahai@rbi.org.in](mailto:rbikehtahai@rbi.org.in)

